



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 82]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 1, 1982/वैशाख 11, 1904

No. 82]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 1, 1982/VAISAKHA 11, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 मई, 1982

सार्वजनिक सूचना संख्या : 19-ईटीसी(पीएम)/82

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय : 1982-83 के दौरान बैराइट्स (लम्स और पाउडर) के लिए निर्यात नीति ।

सि० सं० 6/5/82-ई० 2—आयात एवं निर्यात नीति, 1982-83 (खण्ड-2) के नीति विवरण के पृष्ठ 18 और 19 पर की क्रम सं० 45(7) के सामने बसाए गए बैराइट्स लम्स और पाउडर की निर्यात नीति की और ध्यान दिलाया जाता है, जिसके अनुसार (1) भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार नियम लि० और (2) खान स्वामियों द्वारा बैराइट्स लम्स और पाउडर के निर्यात की अनुमति उनके उत्पादन की मात्रा तक उसमें दर्शाई गई शर्तों के अधीन है ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर, यह निश्चय किया गया है कि सभी श्रेणियों के निर्यातकों द्वारा बैराइट्स लम्स और पाउडर के निर्यात करने की अनुमति बिना किसी मात्रिक प्रतिबंध के दी जाएगी । निर्यात की अनुमति पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पोत-संवहन बिलों पर पृष्ठांकन करने पर दी जाएगी ।

3. जबकि बैराइट्स पाउडर के निर्यात की अनुमति बिना किसी धनतम मूल्य प्रतिबंध के दी जाएगी, बैराइट्स लम्स के निर्यात की अनुमति

प्रति सी० टन निम्नलिखित मूल्यों के आधार पर नीचे दिए गए के अनुसार दी जाएगी :-

जहाज पर्यंत निःशुल्क भारतीय पत्तन/मंत्रालय

(क) पश्चिमी एशिया के प्रति- यू० एस० डालर 40
रिक्त सभी गन्तव्य स्थानों
को सी० एम०
ए०/ए० पी० आई०
श्रेणी के बैराइट्स लम्स

(ख) पश्चिम एशिया को सी० यू० एस० डालर 42
सी० एम० ए०/ए० पी०
आई० श्रेणी के बैराइट्स लम्स

4. उपर्युक्त निम्नतम मूल्य तत्काल से ही लागू होंगे । लेकिन, जहाँ कहीं, विदेशी क्रेताओं ने 1 मई, 1982 से पूर्व अपरिवर्तनीय साख-पत्र खोले हैं, निर्यातकों को बैराइट्स लम्स के निर्यात की अनुमति ऐसे अपरिवर्तनीय साख-पत्र के मई या तो सईब-पत्र की प्रारंभिक वैधता अवधि के भीतर या 30 जून, 1982, इनमें जो भी पहले हो, के लिए दी जाएगी ।

5. तदनुसार, पृष्ठ 18 और 19 पर की क्रम सं० 45(7) के सामने के कागज-3 की क्रम सं० 1 में दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टि को निम्न-लिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

1. लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा बैराइट्स लम्स और पाउडर को सी० एम० ए०/ए० पी० आई० श्रेणी के निर्यात की अनुमति सभी श्रेणियों के निर्यातकों को बिना किसी मात्रिक

प्रतिबंध के दी जाएगी। निर्यात की अनुमति लवान बिलों पर पृष्ठांकन द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी :—

- (1) बेराइट्स पाउडर के निर्यात की अनुमति बिना किसी न्यूनतम मूल्य प्रतिबंध के दी जाएगी ;
- (2) बेराइट्स लम्स के निर्यात की अनुमति जहाज पर्यन्त निःशुल्क भारतीय पत्तन/मन्नास पर प्रति मी० टन निम्नलिखित न्यूनतम मूल्य पर दी जाएगी ;

(क) पश्चिमी एशिया के अतिरिक्त सभी गन्तव्य स्थानों को प्रो० सी० एम० ए०/ए० पी० आई० श्रेणी के बेराइट्स लम्स यू० एस० डालर 40

(ख) पश्चिमी एशिया को प्रो० सी० एम० ए०/ए० पी० आई० श्रेणी के बेराइट्स लम्स यू० एस० डालर 42

मणि नारायणस्वामी,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 1st May, 1982

PUBLIC NOTICE No. 19-ETC (PN)/82

EXPORT TRADE CONTROL

Subject :—Export Policy of Barytes (lumps and powder) during 1982-83.

F. No. 6(5)/82-E II.—Attention is invited to export policy of Barytes Lumps and Powder as indicated against S. No. 45 (vii) at pages 18 and 19 of Policy Statement of Import and Export Policy, 1982-83 (Vol. II) according to which export of Barytes lumps and powder is allowed by (i) Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd., and (ii) Mine-owners to the extent not exceeding their own production subject to the conditions mentioned therein.

2. On a review of the position, it has been decided that export of Barytes Lumps and Powder will be allowed by all categories of exporters without any quantitative restriction. The export will be allowed by the port licensing authorities by making endorsement on the Shipping Bills.

3. While export of Barytes Powder will be allowed without any floor price restriction, export of Barytes Lumps will be allowed on the basis of the following prices per M.T. as indicated below :

FOBT Indian Port/Madras

(a) Barytes Lumps OCMA/API grade to all US \$ 40 destinations except West Asia.

(b) Barytes Lumps OCMA/API Grade to West US \$ 42 Asia.

4. The above floor prices come into force with immediate effect. However, wherever, the foreign buyers have opened irrevocable Letters of Credit, before 1st May, 1982, exporters will be allowed to export Barytes Lumps against such irrevocable Letters of Credit either within the initial validity of the Letters of Credit or upto 30th June, 1982, whichever is earlier.

5. Accordingly the existing entry appearing at S. No. 1 in Col. 3 against S. No. 45 (vii) at pages 18 and 19 shall be substituted by the following :—

1. Export of Barytes Lumps and Powder OCMA/API grade will be allowed by the licensing authorities by all categories of exporters without any quantitative restriction. Export will be allowed by making endorsement on Shipping Bills, subject to the following conditions :—

(i) Export of Barytes Powder will be allowed without any floor price restriction;

(ii) Export of Barytes Lumps will be allowed on the following floor prices per MT FOBT Indian Port/Madras :

(a) Barytes Lumps OCMA/API grade to US \$ 40 all destinations except West Asia.

(b) Barytes Lumps OCMA/API grade to US \$ 42 West Asia.

MANI NARAYANSWAMI,

Chief Controller of Imports and Export.